

प्रेसविज्ञप्ति / PRESS RELEASE

29.04.2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/संपूर्ण वर्ष हेतु वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 26 में इंडियन बैंक के कार्यनिष्पादन का आधार संवृद्धि, गुणवत्ता और प्रतिलाभ है।

कुल कारोबार में 12.79% की वृद्धि हुई, जिसमें ऋण संस्वीकृति बढ़कर 62% हो गई; खुदरा, कृषि एमएसएमई और कॉर्पोरेट जैसे सभी क्षेत्रों में शानदार तेज़ी देखने को मिली।

जमा में 12.29% की वृद्धि हुई; कासा (देशी) जमा का मुख्य आधार बना रहा, जिसने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की और 39.67% का बेहतरीन अनुपात बनाए रखा।

वित्त वर्ष 26 में निवल लाभ वर्ष-दर-वर्ष 11.33% की वृद्धि के साथ ₹12,156 करोड़ रहा।

प्रमुख विशेषताएं (मार्च 2025 के सापेक्ष मार्च 2026 को समाप्त तिमाही)

- निवल लाभ मार्च 25 में ₹ 2956 करोड़ के सापेक्ष मार्च 26 में 4.97% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 3103 करोड़ रहा।
- परिचालनगत लाभ मार्च 25 में ₹ 5019 करोड़ के सापेक्ष मार्च 26 में 5.32% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 5286 करोड़ रहा।
- निवल ब्याज आय मार्च 25 में ₹ 6389 करोड़ के सापेक्ष मार्च 26 में 11.27% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 7109 करोड़ रही।
- शुल्क आधारित आय मार्च 25 में ₹ 918 करोड़ के सापेक्ष मार्च 26 में 19.04% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 1092 करोड़ हो गई।
- जमा पर लागत मार्च 25 में 5.10% के सापेक्ष मार्च 26 में 27 बीपीएस घटकर 4.83% हो गई।
- निधियों की लागत मार्च 26 में 5.21% के सापेक्ष मार्च 2026 में 33 बीपीएस घटकर 4.88% हो गई।
- लागत आय अनुपात मार्च 26 में 6 बीपीएस घटकर 44.99% हो गया।
- इक्विटी पर प्रतिलाभ (RoE) मार्च 26 में 18.98% रहा।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ (RoA) मार्च 26 में 1.28% रहा।
- अग्रिमों पर प्रतिफल (YoA) मार्च 26 में 8.07% रहा।
- निवेश पर प्रतिफल (Yol) मार्च 26 में 6.99% रहा।
- सकल अग्रिम मार्च 2025 में ₹ 588140 करोड़ के सापेक्ष मार्च 2026 में 13.43% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 667113 करोड़ रहा।
- रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) अग्रिम मार्च 25 में ₹350876 करोड़ के सापेक्ष मार्च 26 में 15.18% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 404126 करोड़ हो गया।
- सकल घरेलू अग्रिमों में खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (RAM) का योगदान 65.45% रहा। खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 18.72%, 11.28% एवं 16.39% की वृद्धि हुई। मार्च 26 में गृह ऋण (बंधक सहित) में 13.39% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई।



- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम** में **40%** की विनियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष मार्च 26 में एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में **41.46% (₹ 214943 करोड़)** की वृद्धि हुई।
- **कुल जमा राशि** मार्च 25 में **₹ 737154** करोड़ के सापेक्ष मार्च 26 में **12.29%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ **₹ 827726** करोड़ हो गई। चालू, बचत और कासा जमाओं में क्रमशः **12.16%, 10.64%** और **10.85%** की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई।
- **देशी कासा (CASA)** अनुपात यथास्थिति 31 मार्च 26 को **39.67%** रहा।
- **सीडी अनुपात** यथास्थिति 31 मार्च 2026 को **80.60%** रहा।
- **सकल अनर्जक आस्तियां** मार्च 25 में **3.09%** के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष **111 बीपीएस** घटकर मार्च 2026 में **1.98%** हो गई, एनएनपीए प्रतिशतता मार्च 25 के **0.19%** से **4 बीपीएस** घटकर मार्च 26 में **0.15%** हो गई।
- **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर, टीडबल्यूओ सहित)** मार्च 25 में **98.10%** के सापेक्ष मार्च 26 में वर्ष-दर-वर्ष **18 बीपीएस** वृद्धि के साथ **98.28%** रहा।
- **स्लिपेज अनुपात** मार्च 25 के **1.09%** से **13 बीपीएस** वर्ष-दर-वर्ष घटकर मार्च 26 में **0.96%** हो गया।
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात** **17.93%** रहा। सीईटी-1, वर्ष-दर-वर्ष **104 बीपीएस** बढ़कर मार्च 26 में **16.40%** रहा।
- **प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)** मार्च 25 के **₹ 87.78** से बढ़कर मार्च 26 में **₹ 92.15** हो गई।

प्रमुख विशेषताएं (दिसम्बर 25 के सापेक्ष मार्च 26 को समाप्त तिमाही)

- **निवल लाभ** दिसम्बर 25 के **₹ 3061 करोड़** से तिमाही-दर-तिमाही **1.37%** बढ़कर मार्च 26 में **₹ 3103 करोड़** हो गया।
- **एनआईएम (देशी)** मार्च 26 में **3.35%** रहा।
- **जमा लागत** दिसम्बर 25 के **4.93%** से **10 बीपीएस** घटकर मार्च 26 में **4.83%** हो गई।
- **निधियों की लागत** दिसम्बर 25 के **5.00%** से **12 बीपीएस** घटकर मार्च 26 में **4.88%** हो गई।
- **निवेश पर प्रतिफल (YoI)** दिसम्बर 25 के **6.95%** से **4 बीपीएस** बढ़कर मार्च 26 में **6.99%** हो गया।
- **लागत आय अनुपात** दिसम्बर 25 के **46.90%** से **191 बीपीएस** घटकर मार्च 26 में **44.99%** हो गया।
- **सकल अनर्जक आस्तियां** दिसम्बर 25 के **2.23%** से **25 बीपीएस** घटकर मार्च 26 में **1.98%** हो गई, एनएनपीए मार्च 2026 में **0.15%** बनी रही।

प्रमुख विशेषताएं (मार्च 25 के सापेक्ष मार्च 26 को समाप्त वर्ष)

- **निवल लाभ** वित्त वर्ष 25 के **₹ 10918 करोड़** के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 में **11.33%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ **₹ 12156 करोड़** रहा।
- **परिचालनगत लाभ** वित्त वर्ष 25 के **₹ 18998 करोड़** के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 में **4.83%** वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ **₹ 19916 करोड़** रहा।

- निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 25 के ₹ 25176 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 में 6.91% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹ 26915 करोड़ रहा।
- जमा लागत वित्त वर्ष 25 के 5.12% के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 में 15 बीपीएस घटकर 4.97% हो गई।
- निवल ब्याज मार्जिन (NIM) देशी वित्त वर्ष 26 में 3.36% रहा।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ (RoA) वित्त वर्ष 26 में 1.31% रहा।
- लागत आय अनुपात वित्त वर्ष 26 में 46.03% रहा।

नेटवर्क

- बैंक की 6001 देशी शाखाएं (3 डीबीयू सहित) हैं जिनमें से 2011 ग्रामीण, 1605 अर्ध-शहरी, 1195 शहरी एवं 1190 महानगरीय शाखाएं हैं। बैंक की 3 विदेशी शाखाएं हैं एवं 1 आईबीयू (गिफ्ट सिटी शाखा) है।
- बैंक के पास 5657 एटीएम एवं बीएनए हैं और 17032 बैंक मित्र (बीसी) हैं।

डिजिटल बैंकिंग

- वित्तीय वर्ष 26 में डिजिटल चैनलों के माध्यम से ₹ 2,72,302 करोड़ का कारोबार हुआ। अब तक कुल 153 डिजिटल यात्राएं, उपयोगिताएं एवं प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं।
- मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष-दर-वर्ष 22% बढ़कर 2.36 करोड़ हो गई है।
- यूपीआई उपयोगकर्ताओं एवं नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में क्रमशः 21% एवं 3% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई है, जो क्रमशः 2.64 करोड़ और 1.19 करोड़ तक पहुँच गई हैं। डेबिट कार्ड एवं पीओएस उपयोगकर्ताओं की संख्या में क्रमशः 9% एवं 36% की वृद्धि दर्ज की गई।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां:

- बैंक को वर्ष 2026 के लिए “गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस” का विजेता घोषित किया गया।
- बैंक को “आईबी साथी” के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्डन अवार्ड और “सुरक्षा संबंधी परिचालनों” के लिए सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ।
- बैंक के एमडी एवं सीईओ को 'तमिलनाडु बिज़नेस लीडर ऑफ़ द ईयर, इंडस्ट्री-वाइज़ अवार्ड्स 2025' में 'सीईओ ऑफ़ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बैंक को क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए “रेड हैट एपीएसी इन्नोवेशन अवार्ड 2025” से सम्मानित किया गया।
- इंडियन बैंक को बीएफएसआई क्षेत्र में इन्नोवेशन और तकनीकी रूपांतरण में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए भारत के वित्तीय भविष्य के निर्माता के रूप में ईटी एज़ बीएफएसआई टेक लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- इंडियन बैंक को डिजिटल सीएक्स ट्रेलब्लेज़र (पीएसयू) के रूप में अपनी उपलब्धियों के सम्मानस्वरूप आईबीईएक्स इंडिया 2026 बीएफएसआई टेक अवार्ड (कांस्य) से सम्मानित किया गया है।

- राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के सम्मानस्वरूप गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडियन बैंक के कोलकाता उत्तर और वाराणसी अंचल को 'क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार 2024-25' के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि पटना अंचल को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- इंडियन बैंक को ईएनक्यूबीई कोलैबरेशन्स द्वारा आयोजित 'कनेक्ट फ्यूचर रेडी लीडर्स – विकसित भारत 2047' के 5वें संस्करण में 'डिजिटल लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

हमारा फोकस

हमने सक्रिय पहलों के साथ एक शानदार तिमाही का समापन किया है, जो संवृद्धि, नवाचार और समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सुदृढ़ अभिशासन, अंतर्निहित आघात-सहनीयता और अत्यंत समर्पित कार्यबल हमारी सतत सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हम सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता और भविष्योन्मुखी नवाचार को निरंतर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के साथ समेकित कर वास्तविक एवं स्थायी मूल्य का सृजन कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक कार्य क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु ग्राहकोन्मुखता है, जिसमें डिजिटल रूपांतरण हमारे दैनिक अनुभवों को गति प्रदान कर और बेहतर बनाता है। समेकित उद्देश्य और आत्मविश्वास से ओत-प्रोत होकर, हम और अधिक मजबूती एवं सूझ-बूझ के साथ भावी चुनौतियों के प्रति सजग होकर भविष्य की ओर अग्रसर हैं।
